

डेंगू की रोकथाम के लिये घरों में व घरों के आस-पास फ्रिज की ट्रे, कूलर, टायर, पानी की टंकी, नारियल के खोल, मनीप्लान्ट की बोतल, गमले, खाली डब्बे, डिस्पोजेबल कप-प्लेट, पक्षियों के पानी पीने के बर्तन आदि में एकत्रित पानी को तुरन्त गिरा कर खाली कर दें। दिन में भी मच्छरों से बचने के लिये मच्छर रोधी उपकरण व पूरे बदन को ढकने वाले कपड़ों का प्रयोग करें। बुखार, जोड़ों में दर्द, उल्टी व लाल रंग के चक्कत्ते होने पर तुरन्त चिकित्सक से परामर्ष लें।